

भारत का पत्रिका
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 141] नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 9, 1981/चैत्र 19, 1903
No 141] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 9, 1981/CHAITRA 19, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

कृषि मंत्रालय
(जात्य विभाग)
अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 अप्रैल, 1981

सा. का. नि. 283 (अ)/आष. वस्तु/गन्ना :—केन्द्रीय सरकार, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1968 के खण्ड 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और उसके उप-खण्ड (1) में उल्लिखित विभिन्न तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, ऐसे प्राधिकारियों, निकायों और संगमों से परामर्श करने के पश्चात् जिनसे परामर्श करना वह आवश्यक समझती है, गन्ना की आधारीक न्यूनतम कीमत 12.00 रुपये प्रति क्विंटल के आधार पर जो चीनी की 8.5 प्रतिशत या उससे कम वसूली से सम्बद्ध है और जिसके साथ 8.5 प्रतिशत से अधिक की प्रत्येक 0.1 प्रतिशत वसूली की वृद्धि पर 15.2941 पैसे प्रति क्विंटल का प्रीमियम है, इससे उपावृद्ध अनुसूची के स्तम्भ (3) में विनिर्दिष्ट कीमत को, गन्ना की उस न्यूनतम कीमत के रूप में तुरन्त नियत करती है जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ (2) में विनिर्दिष्ट निवर्त कड़ाह प्रक्रिया वाले चीनी कारखानों के स्वामियों या उनके

अभिकर्ताओं द्वारा कारखाने के द्वार पर या किसी क्रय केन्द्र पर परिवर्तित करना है
लिए अगली वर्ष 1980-81 के लिए 30 सितम्बर, 1981 तक संदेय होगा किन्तु यह
कीमत उक्त आदेश के खण्ड 3क के अधीन उसके लिए संदेय रिबेट के अधीन
होगी।

अनुसूची

क्रम सं०	कारखाने का नाम	गन्ने की प्रति क्विंटल कीमत रुपयों में
1	2	3
1.	मैसर्स गोदावरी मनार सहकारी शर्करा कारखाना लिमिटेड, शंकरनगर, पो० रामतीर्थ, तालुक बाइलोली, जिला नंदेड (महाराष्ट्र)	14.68

[सं० 3-1/80-एस. पी. बाई (खी-2)]
सी. एन. राघवन, संयुक्त सचिव (खीनी)

MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Food)

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th April, 1981

G.S.R. 283(E)/Ess. Com. [Sugarcane].—In exercise of the powers conferred by clause 3 of the Sugarcane (Control) Order, 1966, and having regard to the various factors mentioned in sub-clause (1) thereof, the Central Government, after consultation with such authorities, bodies and associations as are considered necessary by it to be consulted, hereby, on the basis of the basic minimum price of sugarcane at Rs. 13.00 per quintal linked to a recovery of 8.5 per cent or below of sugar with a premium of 15.2941 paise per quintal for every 0.1 per cent increase in recovery above 8.5 per cent, fixes, with immediate effect, the price specified in column (3) of the Schedule hereto annexed as the minimum price of sugarcane which shall be payable by the owners of the vacuum pan process sugar factory specified in the corresponding entry in column (2) of the said Schedule, or its agents for sugarcane delivered at the gate of the factory or at any purchasing centre for the sugar year 1980-81 until the 30th September, 1981, subject to the rebate payable therefor under clause 3A of the said Order.

SCHEDULE

Sl. No	Name of the Factory	Minimum sugarcane price in rupees per quintal
(1)	(2)	(3)
1.	M/s. Godavari Manar Sahakari Sakhar Karkhane Limited, Shankarnagar, P. O. Ramtirth, Tal. Biloli, District Nanded (Maharashtra)	14.68

[No. 3-1/80-SPY (D-II)]
C. N. RAGHAVAN, Jt. Secy. (Sugar).